



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 फाल्गुन, 1939 (श०)

संख्या- 159 राँची, मंगलवार,

27 फरवरी, 2018 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

21 अगस्त, 2017

संख्या- 05/एन०एस०ए०-01/02/2014 - 4930-- चूँकि झारखण्ड सरकार को संतुष्ट होने का पर्याप्त आधार है कि गुमला जिला में आपराधिक एवं नक्सली गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों को निरुद्ध करने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना सामान्य दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत विरुद्ध करना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (सं० 65/1980) की धारा 3 की उपकारा (03) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्य के गुमला जिला के उपायुक्त सह जिला दण्डोधिकारी को उक्त नियम की धारा 03 की उपकारा (02) के अधीन पत्र निर्गत की तिथि से आगामी तीन माह तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय,
सरकार के अवर सचिव।